

ॐ

~~~~~

**विद्या भवन, बालिका विद्यापीठ, लखीसराय ।**

**कक्षा-नवम्**

**विषय- हिन्दी**

**दिनांक-21-01-2021**

**बच्चे काम पर जा रहे हैं**

**वैकल्पिक प्रश्न**

**५ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ५**

**मेरे प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात!**

**आपका हर दिन खुशियों से भरा हो!**

**एन सी इ आर टी पर आधारित**

1. सुबह के समय सड़कों पर क्या छाया हुआ है?

(क) धुआँ

(ख) अँधेरा

(ग) कोहरा

(घ) इनमें से कोई नहीं

2. सुबह-सुबह बच्चे कहाँ जा रहे हैं?

(क) मंदिर

(ख) काम पर

(ग) विद्यालय

(घ) बाजार

3. प्रस्तुत कविता में किस समस्या को उजागर किया गया है?

- (क) बाल-विवाह
- (ख) दहेज प्रथा
- (ग) भ्रष्टाचार
- (घ) बाल-मजदूरी

4. बच्चों को अपने विकास के लिए किसका अवसर मिलना चाहिए?

- (क) खेलने-कूदने का
- (ख) पढ़ने-खेलने का
- (ग) सोने का
- (घ) खाने का

5. बच्चों का कोहरे से ढँकी सड़क पर काम करने के लिए जाना किसके लिए चिंता का विषय बन गया है?

- (क) कवि के लिए
- (ख) माता-पिता के लिए
- (ग) सरकार के लिए
- (घ) समाज के लिए

6. कवि के अनुसार बच्चों के रंग-बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है?

- (क) चींटियों ने
- (ख) चूहों ने
- (ग) दीमकों ने
- (घ) इनमें से कोई नहीं

7. अगर नन्हें बच्चों को बचपन की सारी सुविधाएँ न मिलें तो उनका जीवन कैसा होगा?

- (क) आनंदपूर्ण

- (ख) निरर्थक
- (ग) कष्टमय
- (घ) गंभीर

8. बच्चों को किस कारण बचपन में ही काम पर जाना पड़ रहा है?

- (क) अनाथ होने के कारण
- (ख) बीमारी के कारण
- (ग) गरीबी के कारण
- (घ) इनमें से कोई नहीं

9. बच्चों को काम पर जाता देख कवि के मन में कैसे भाव उमड़ते हैं?

- (क) करुणा के
- (ख) चिंता के
- (ग) आवेग के
- (घ) उपर्युक्त सभी

10. कवि के अनुसार बच्चों का काम पर जाना कैसी स्थिति है?

- (क) सुखद
- (ख) भयानक
- (ग) गंभीर
- (घ) इनमें से कोई नहीं

धन्यवाद

कुमारी पिंगी 'कुसुम'

